

Day 8 Give advice/ order and warnings

ADVICE (सलाह देना)

English में advice देना थोड़ा tricky होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ी सी भी चूक advice को order में बदल सकती हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से advice दी जाए-

Modal verbs क्या होते हैं, हमने last lesson में सीखा था। Advice देने के लिए हम should, must और ought to का use करते हैं। सबका अर्थ एक है पर they work in slightly different ways. साधारणतः 'चाहिए' के लिए Should तथा अवश्य चाहिए के लिए Must का प्रयोग करते हैं। Should का उपयोग तब होता है जब हम अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। 'Ought' का उपयोग 'to' के साथ किया जाता है। Should का प्रयोग 'ought to' की तुलना में अधिक व्यापक रूप से किया जाता है जो कि बहुत ही औपचारिक माना जाता है। 'Ought to' को 'Should' की तुलना में अधिक औपचारिक और सशक्त माना जाता है।

SHOULD is used when we want to express our subjective opinion. दूसरे शब्दों में मुझे जो लगता है वो आपके लिए करना best है। वही OUGHT TO is used when we want to express an objective truth. In other words, 'जो जरूरी है और जिसे avoid नहीं किया जा सकता।

(Should - Should का use सलाह/ उपदेश / कर्तव्य का बोध कराने के लिए किया जाता है

Ought to का use duty, necessity and moral obligation (नैतिक जिम्मेदारी) को बताने के लिए किया जाता है। It is not as forceful as must, but it is stronger than should.)

जैसे -

We should not tell a lie. (हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए।) (advice)

You should complete your work timely. (तुम्हें अपना कार्य समय से पूर्ण करना चाहिए।) (advice)

We should respect our elders. (हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए।) (कर्तव्य या कर्म (For Obligation or Deed)

We should love our motherland. (हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए।) (कर्तव्य या कर्म (For Obligation or Deed)

He said that I should see a doctor. (उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए।) (Duty)

You shouldn't have said anything. (आपको कुछ नहीं कहना चाहिए था।) (Duty)

Should का use जो सही है उसे भी बताने के लिए किया जाता है (especially when criticizing somebody's actions)

You shouldn't drink and drive. (आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए।)

I think you should buy a new car. (मुझे लगता है कि आपको एक नई कार खरीदनी चाहिए।)

I would suggest doing more exercise. (मैं और अधिक व्यायाम करने का सुझाव दूंगा।)

You should call your mother more often. (आपको अपनी मां को अधिक बार फोन करना चाहिए।)

You should do more exercise. (आपको अधिक व्यायाम करना चाहिए।)

You shouldn't drink so much coffee. (आपको इतनी कॉफी नहीं पीनी चाहिए।)

अब इन वाक्यों को देखिए

They ought to follow the school's policy, or they will get expelled. (उन्हें स्कूल की नीति का पालन करना चाहिए, अन्यथा वे निष्कासित हो जाएंगे।)

You ought to do more exercise. (आपको और अधिक व्यायाम करना चाहिए।)

We ought not to have spent so much on basic medicines. (हमें बुनियादी दवाओं पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए।)

We ought not to have ordered so much food. (हमें इतना खाना ऑर्डर नहीं करना चाहिए था।)

You ought to be punctual. (आपको समय का पाबंद होना चाहिए।)

You ought to follow the rules. (आपको नियमों का पालन करना चाहिए।)

You ought to help the poor. (आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए।)

You ought not drink so much coffee. (आपको इतनी कॉफी नहीं पीनी चाहिए।)

(**ought to** में हमारे पास **choice** होती की हम उस **advice** को माने या नहीं पर अगर नहीं मानते तो उसके परिणाम बुरे हो सकते हैं।)

We ought not to have ordered so much food. (हमें इतना खाना ऑर्डर नहीं करना चाहिए।)

Must/ have to

Must का use ऐसे **ideas** जैसे **compulsion, obligation or duty** को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और इसका **use** एक **strong advice** देने के लिए किया जाता है। यह **should** और **ought to** से

अधिक **strong** होता है। **have to** का भी **use must** की तरह ही होता है। बस अंतर इतना है **must** का **use** में आपकी व्यक्तिगत राय (**personal opinions**) होती है जबकि **have to** का **use** करने का अर्थ है कि किसी **authority** ने कहा है कि यह करना जरूरी है। जैसे -

We must love our country. (हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए।)

We must get up early. (हमें जल्दी उठना चाहिए।)

I must improve my writing skills. (मुझे अपने लेखन कौशल में सुधार करना चाहिए।)

You must learn to drive. (आपको गाड़ी चलाना सीखना चाहिए।)

You must go and see the doctor. (आपको डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए।)

You have to look after their hair regularly. आपको नियमित रूप से कुत्ते के बालों की देखभाल करनी होगी। (**dog experts** का कहना है)

Do you have to wear a tie for school? क्या आपको स्कूल के लिए टाई पहननी है? (स्कूल के नियमों के बारे में पूछा जा रहा है)

Have to बोलचाल की भाषा में अधिक **use** किया जाता है जबकि **must** का **use formal writing** में अधिक होता है जैसे लिखी हुई **notices** में

Passengers must fasten their seat-belts. (यात्रियों को अपनी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए।)

अगर आप इन सभी वाक्यों को ध्यान से पढ़ें (**must/ have to**) तो आप पाएंगे कि इन सभी कार्यों को करना आपके लिए आवश्यक है। अन्य शब्दों में इन्हें आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और **choice** नहीं है। जबकि **ought to** का **use** करने पर, हमारे पास **choice** होती है कि वह कार्य करें या ना करें और अगर नहीं किया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जबकि **should** में हमारे पास **choice** भी होती है और उन्हें पूरा करने की कोई बाध्यता भी नहीं होती।

इसके अतिरिक्त '**suggest**' और '**recommend**' words का भी **use advice** देने के लिए किया जा सकता है -

I suggest taking a holiday. (मैं छुट्टी लेने का सुझाव देता हूँ।)

I suggest (that) you take a holiday. (मेरा सुझाव है कि आप छुट्टी लें।)

I recommend going to bed earlier. (मैं जल्दी सोने की सलाह देता हूँ।) - (going to bed - सोना)

I recommend (that) you go to bed earlier. (मैं सलाह देता हूँ कि आप जल्दी सोने जाएं।)

imperatives (imperative verbs + '-ing') का use कर के भी advice दी जा सकती है जैसे -

Start going to the gym. (जिम जाना शुरू करें।)

Read more often to improve spelling. (वर्तनी सुधारने के लिए अधिक बार पढ़ें।)

Try running once at week. (सप्ताह में एक बार दौड़ने की कोशिश करें।)

इसके अतिरिक्त आप इन **expressions** का use भी **advice** देने और **and** दूसरों को **recommendations** के लिए कर सकते हैं -

(I think/I really think) you need to/must/should ...

How about ...?

It is usually a good idea to ...

My suggestion/advice is (to) ...

Why don't you ...?

You could (try) ...

Have you tried ...?

I (would) (strongly) suggest/advice that ...

If I was/were you, I'd ...

One idea is to ...

Have you thought about ...?

It might be an old wives' tale, but ...

Give order

Orders देने के लिए हम imperative form (base form of verb) का use करते हैं जैसे -

Be quiet! (शांत रहो!)

Take care! (ध्यान रखो!)

Come here! (यहाँ आओ!)

Put it there! (इसे वहाँ रखो!)

Listen! (सुनो!)

Imperative form से मतलब है कि **verb** की **base form** जिसका **use** बिना **subject** के किया जा सके। **Imperative form** को थोड़ा **soft** करने के लिए उसे **Let's (Let us) or please** से **start** किया जा सकता है **especially** (विशेष रूप से) जब आप **office** में या फिर **public places** पर बात कर रहे हो। **Schools** या फिर बच्चों के साथ **normally** सिर्फ **imperative** का ही **use** करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक **strict warning** के साथ साथ कुछ सिखाया भी जाता है।

Let's go now, shall we? (चलो हम चलते हैं, क्या हम चलें?)

Please listen to what I'm saying. (More polite than 'Listen to what I am saying.')(कृप्या सुनें जो मैं कह रही हूँ।)

Come with me, please. (कृप्या मेरे साथ आए।)

अब different different situation में कैसे बात करें, example के साथ सीखते हैं -

[in class]

Stop talking now! (अब बातें करना बंद करो!)

Be quiet! (चुप रहो!)

[a father to his child]

Don't press that button. (उस बटन को मत दबाओ।)

Don't come too late. (बहुत ज्यादा लेट मत आना।)

[a mother to a child]

You must wear a coat. It's raining. (तुम्हें कोट जरूर पहनना चाहिए। बारिश हो रही है।)

You must come home before dusk. (dusk - अंधेरा - must का use भी किया जा सकता है order या instruction देने के लिए) (तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर जरूर आ जाना चाहिए।)

[a boss to an assistant/ junior]

Ask Atul to review this file and then send it off immediately please. (अतुल को बोलो कि इस फाइल की रिव्यू करें और फिर तुरंत भेज दें।)

Will you bring us the files please, Riya? (रिया, क्या आप फाइल्स सबके पास ले आएंगी।)

I'd be grateful if you didn't tell anyone about this. (मैं आपका आभारी रहूँगा अगर आप इसके बारे में किसी को नहीं बताते।)

[Public notices]

Public notices अधिकतर direct होते हैं जिनमें do, do not or must का use होता है।

Do stand in queue. (लाइन में खड़े रहिए।)

Do take care of your valuables. (अपने कीमती सामान का ध्यान रखें।)

Don't bring eatables inside the station premises. (स्टेशन परिसर के अंदर खाने के सामान ना लाएं।)

Don't smoke. (धूम्रपान न करें।)

हम do, does (present simple) or did (past simple) का use किसी कार्य (verb) पर extra force (जोर) लगाने के लिए करते हैं। ऐसे sentences में main verb की base form (without to) का use होता है और बोलते समय stress (जोर) do/does/did पर दिया जाता है।

Warnings

कभी कभी हमें सामने वाले को strong warning देने की जरूरत होती है। असल में हम उन्हें immediate खतरे से सावधान करना चाहते हैं। उस समय आप sentence को Don't या I warn you से भी शुरू कर सकते हैं जैसे -

Don't cross the road. (सड़क पार मत करो।)

Don't try to open the door when the train is moving. (जब ट्रेन चल रही हो तो दरवाजा खोलने की कोशिश न करें।)

I warn you not to cross the road. (मैं आपको सड़क पार नहीं करने की चेतावनी देता हूँ।)

I warn you, these images may be too shocking for young children. (मैं आपको चेतावनी देता हूँ, ये चित्र छोटे बच्चों के लिए बहुत खौफनाक/ दिल दहलानेवाले हो सकते हैं।)

Please, Veena, stop it right now! I'm warning you! (वीना, कृपया इसे अभी बंद करो! मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ!)

जब हम किसी को सावधान करना चाहते हैं जब वे कहीं जा रहे होते हैं तो हम अक्सर इन expressions का उपयोग करते हैं:

Take care

Take care on the roads. They are really very busy roads. (सड़कों पर ध्यान रखना। वे वास्तव में बहुत व्यस्त रास्ते हैं।)

Mind how you go

It was great seeing you. Mind how you go, the traffic is terrible today. (आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। ध्यान रखें आप कैसे जाते हैं, आज यातायात बहुत ज्यादा है।)

जब तत्काल खतरे का अंदेशा हो तो हम इन **expressions** को **use** कर सकते हैं -

Watch out!

Watch out! The pavement is slippery. (ध्यान रहे! फुटपाथ फिसलन भरा है।)

Look out!

Look out! There's a car coming. (सावधान रहें! एक कार आ रही है।)

कुछ **common formal expression** जिन्हें हम **roads** और **public buildings** पर देखते हैं -

Beware

Beware of dogs. (कुत्तो से सावधान।)

Caution

Caution - high voltage wire is there. (सावधानी - high वोल्टेज तार है।)

अधिकतर समय लोग सलाह देते हैं कि आप कोई **risk** ना लें। अगर आपको यह किसी को कहना है तो कुछ इस तरह से अपने **sentences** में इन **phrases/ idioms** का **use** करें -

Better safe than sorry

You should pack a couple of torches and some blankets for your journey. Better safe than sorry. (आपको अपनी यात्रा के लिए कुछ टॉर्च और कुछ कंबलों को रख लेना चाहिए। बाद में खेद होने से बेहतर है सुरक्षित रहें।)

(We can also say "it's better to be safe than sorry")

You can't be too careful

I've locked all the doors and windows. You can't be too careful these days. (मैंने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हैं। आप इन दिनों इससे अधिक सावधान नहीं रह सकते।)

Be careful!

Be careful! That chair is broken! (सावधान रहें! वह कुर्सी टूट गई है!)

Instructions -

अब अगर **instructions** देने हो तो सबसे पहले यह याद रखिए कि **instructions** एक **sequence** में दिए जाते हैं। जो काम पहले करना है उसका **instruction** पहले और फिर इसी तरह **sequence** चलता है।

यह बताए कि - क्या जरूरी है/ क्या गलत है/ और क्या जरूरी नहीं है

You (don't) need to...

You have to...

You must/mustn't.../ You should/shouldn't...

पूरे **instruction** को आप तीन भागों में बाँट सकते हैं -

शुरुआत (**Starting out**)

The first thing you do is...

Before you begin, (you should...)

The best place to begin is...

I would start by...

जारी रखना (**Continuing**)

After that,

The next step is to...

The next thing you do is...

Once you've done that, then...

When you finish that, then...

अंतिम पड़ाव (**Finishing**)

The last step is...

The last thing you do is...

In the end,...

When you've finished,...

When you've completed all the steps,...

याद कीजिये जब आपने **Direction** वाला **lesson** पढ़ा था, वहाँ पर भी **direction** देने के लिए हमने **instructions** का ही **use** किया था। यह पार्ट वहाँ का ही **continuation** है।

Tip of the Day

आज के **lesson** में हमने **order** देने की बात की। आपको एक जगह और **order** देने की जरूरत पड़ती पर वो **order** बिलकुल अलग है। आज हमने सीखा था कि किस तरह किसी को काम करवाने के लिए **order** दें। आप जब किसी **restaurant** या **coffee shop** पर जाते हैं तो वहाँ भी आप खाने का **order** ही देते हैं पर बिलकुल अलग तरह से। उस समय आप इन **questions** का **use** कर सकते हैं -

अगर आप **beginning** में कुछ **drinks** लेना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं -

we'd like (type of drink) while we decide on our food.

इसके बाद आप **starter/appetizer** या **main course** का आर्डर देने के लिए अपना **sentence** इस तरह शुरू करें -

I'd like.../ I'll have... for starter/appetizer

I'd like.../ I'll have... for main course

अब अगर आपको यह नहीं पता कि उस **restaurant** की क्या विशेषता है तो आप पूछ सकते हैं -

What would you recommend?

What are the specialities?

What are today's specials?

आप कुछ **general questions** भी पूछ सकते हैं -

Does this contain meat/nuts/dairy?

At the end, आप उनसे **bill** के लिए कुछ इस तरह से पूछें -

Can we have the bill, please?

Check, please.

तो अब जब आप **dinner** के लिए बाहर जाए तो ये सब **expressions** जरूर **use** करें।